



ड्रोन सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी



आपको अपना ड्रोन ज़मीन से 120 मीटर (400 फीट) से अधिक की ऊंचाई पर नहीं उड़ाना चाहिए।



आपको अपना ड्रोन दूसरों से कम से कम 30 मीटर दूर रखना चाहिए।



आपको नियंत्रित हवाई-अड्डों से कम से कम 5.5 किलोमीटर दूर रहना चाहिए।



आपको एक समय पर कवल एक ड्रोन ही उड़ाना चाहिए।



आपको लोगों के ऊपर या आबादी वाले किसी क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए। इन क्षेत्रों में समुद्री तट, पाक, समारोह, या खेलकूद के मैदान शामिल हो सकते हैं जहाँ कोई खेल चल रहा हो।



आपको कवल दिन में इसे उड़ाना चाहिए और अपना ड्रोन दिखाई देता रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको अपना ड्रोन अपनी आँखों से दिखाई देते रहना ज़रूरी है (किसी उपकरण से देखने की बजाए)।



आपको किसी ऐसे क्षेत्र के ऊपर से या इसके करीब अपना ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए जो जन-सुरक्षा को प्रभावित करता हो या जहाँ आपातकालीन कार्य चल रहे हों। इसमें गाड़ी की दुर्घटना, पुलिस ऑपरेशन्स, आग लगने की घटना या आग बुझाने का काम, तथा तलाशी व बचाव कार्य जैसी स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं।



यदि आपके पास ड्रोन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट न हो, या आप उप-2किग्रा या निजी भू-स्वामी श्रेणी में अपवर्जित ड्रोन न उड़ा रहे/रही हों, तो पैसे या आर्थिक लाभ के लिए ड्रोन उड़ाना गैर-कानूनी है।



याद रखें, आपको किसी ऐसे तरीके से अपने ड्रोन का संचालन नहीं करना चाहिए जो किसी अन्य विमान, व्यक्ति या संपत्ति के लिए खतरा प्रस्तुत करे।



व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करें। लोगों की सहमति के बिना उनकी रिकॉर्डिंग न करें या फोटो न लें – यह राज्य के कानूनों का उल्लंघन करना हो सकता है।

नए नियमों के लागू होने का अर्थ है कि ड्रोन ऑपरेटरों के पास एक वध ड्रोन पायलट मान्यता-प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए और उन्हें 250 ग्राम से अधिक भार वाले किसी ड्रोन को रजिस्टर करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट casa.gov.au/drone देखें।

और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट droneflyer.gov.au पर जाएँ।